



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1940 (श10)
(सं० पटना 756) पटना, मंगलवार, 7 अगस्त 2018

सं० वि०2-51/99-641/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

7 अगस्त 2018

विषय :- बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही दिनांक 01.04.2018 से 30.06.2018 एवं द्वितीय तिमाही दिनांक 01.07.2018 से 30.09.2018 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.6% (सात दशमलव छः प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-131, दिनांक 20.02.2018 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2017-18 के चतुर्थ तिमाही दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.6% (सात दशमलव छः प्रतिशत) लागू किया गया है ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प-एफ नं०-एफ नं०-5(1)-बी. (पीडी)/2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 एवं दिनांक 17 जुलाई, 2018 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 01.04.2018 से 30.06.2018 एवं दिनांक 01.07.2018 से 30.09.2018 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.6% (सात दशमलव छः प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।

3. अतः सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 01.04.2018 से 30.06.2018 एवं दिनांक 01.07.2018 से 30.09.2018 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.6% (सात दशमलव छः प्रतिशत) लागू होगी ।

4. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव(व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 756-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>